

जनपद बाराबंकी

प्रेस नोट सं0-62 दिनांक- 21.07.2021

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 शातिर लुटेरे/हिस्ट्रीशीटर को किया गया गिरफ्तार-

दिनांक-20.07.2021 को थाना कोतवाली नगर पर वादिनी बिंदेश्वरी जायसवाल पत्नी ओम कुमार जायसवाल निवासी ग्राम सुद्धियामऊ थाना रामनगर जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दी गयी कि मैं आजाद नगर से कटरा बारादरी नबीगंज रोड पर जा रही थी तभी मोटर साइकिल सवार एक अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से आकर मेरे गले से सोने की चेन लूट कर भाग गया। इस सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0-637/2021 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा घटना का सफल अनावरण कर शातिर अभियुक्त की गिरफ्तारी/बरामदगी करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ0 अवधेश सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री सीमा यादव के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलेजेंस के आधार पर अथक प्रयास करते हुए दिनांक 21.07.2021 को घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर लुटेरा जयदीप उर्फ धीरेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद निवासी आजाद नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी को रामनगर तिराहा थाना कोतवाली नगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद लूटी गयी चेन पीली धातु (दो टुकड़ों में), 100 ग्राम स्मैक व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल अपाचे-UP 41 AY 0146 को बरामद किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-640/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ से प्रकाश में आया कि जयदीप उर्फ धीरेन्द्र गुप्ता शातिर लुटेरा है तथा जनपद बाराबंकी के थाना कोतवाली नगर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। जिसकी हिस्ट्रीशीट नम्बर-A-10 है। अभियुक्त द्वारा जनपद लखनऊ, बाराबंकी व सीतापुर आदि जनपदों में लूट करने की घटनाएं कारित की जाती है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

जयदीप उर्फ धीरेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद निवासी आजाद नगर थाना कोतवाली नगर बाराबंकी (उम्र करीब 32वर्ष) (हिस्ट्रीशीटर A-10 थाना कोतवाली नगर बाराबंकी)

बरामदगी-

- 1- 01 अदद लूटी गयी चेन पीली धातु (दो टुकड़ों में)।
- 2- 100 ग्राम स्मैक।
- 3- मोटर साइकिल अपाचे-UP 41 AY 0146 (घटना में प्रयुक्त)

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-696/20 धारा 392/411 भादवि0 थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 808/20 धारा 307 भादवि0 थाना चिनहट जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 810/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना चिनहट जनपद लखनऊ।

पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री अमर सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी
- 2- उ0नि0 श्री लालधर प्रसाद थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी
- 3- उ0नि0 श्री सुधीर कुमार यादव थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी
- 4- उ0नि0 श्री संजीव प्रकाश सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी
- 5- मु0आ0 अजीजुल हसन, मु0आ0 विनय उपाध्याय, थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी
- 6- कां0अश्वनी कुमार सिंह, कां0 सौरभ गुप्ता थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी